

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

प्रपत्र संख्या 3 (मृत जन्म रिपोर्ट)
(नियम 5 देखिए)



रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार

पंजीयन का रेफरेन्स नम्बर.....

(‘पहचान’ वेबपोर्टल से सृजित)

नगर निगम/नगर निकाय/ग्राम पंचायत

(जहां घटना घटित हुई हो)

1. जन्म तारीख

(शिशु के जन्म की वास्तविक तारीख, माह और वर्ष लिखिए : जैसे : 01.01.2000)

2. लिंग : (✓ का निशान लगाये) पुरुष स्त्री ट्रांसजेण्डर

3. (क)पिता का नाम: (पूरा नाम जैसा कि प्रायः लिखा जाता है)

हिन्दी में

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)

पिता का आधार नं. (यदि हो)

(ख) माता का नाम (पूरा नाम जैसा कि प्रायः लिखा जाता है)

हिन्दी में

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)

माता का आधार नं. (यदि हो)

परिवार का जन आधार कार्ड संख्या (यदि हो)

4. (क) माता/पिता का स्थाई पता: (हिन्दी में)

पिन कोड

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)

Pin Code

(ख) बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता: (हिन्दी में).....

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)

मोबाईल नम्बर

ई-मेल

5. जन्म स्थान: (समुचित प्रविष्टि 1 या 2 पर ✓ का निशान लगायें तथा नाम/पते का अंकन करें)

1. अस्पताल/संस्थान (नाम) :

2. घर (पता) :

6. माता का निवास स्थान (स्थान जहां प्रायः माता रहती है। यह उस स्थान जहां शिशु का जन्म हुआ है से अलग हो सकता है। घर का पता लिखना अपेक्षित नहीं है)

(क) क्षेत्र : शहरी/ग्रामीण (समुचित प्रविष्टि पर ✓ निशान लगायें) (ख) नगर/गांव का नाम :

(ग) जिला : (घ) राज्य :

7. शिशु जन्म के समय माता की आयु (पूर्ण वर्षों में)

8. माता का शैक्षणिक स्तर: (समुचित प्रविष्टि पर ✓ निशान लगायें) (1) निरक्षर (2) साक्षर (3) प्राथमिक (4) उच्च प्राथमिक

(5) माध्यमिक (6) उच्च माध्यमिक (7) स्नातक (8) स्नातकोत्तर

9. प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या: (नीचे दी गई प्रविष्टियों में से समुचित पर ✓ का निशान लगायें)

(1) संस्थागत-सरकारी (2) संस्थागत-निजी या गैर सरकारी

(3) डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई (4) परम्परागत जन्म परिचारक

(5) संबंधी या अन्य द्वारा

10. गर्भावस्था की अवधि (सप्ताहों में)

11. गर्भधारण के दौरान मृत्यु का कारण (यदि कोई हो):

21. (i) आवेदक/सूचनादाता का नाम :

(ii) आवेदक का मृतक से सम्बन्ध :

(iii) आवेदक का आधार संख्या

(iv) आवेदक का जन आधार कार्ड संख्या

(v) आवेदक का मोबाइल नम्बर

घोषणा

मैं..... पुत्र/पुत्रीआयु.....

निवासी यह घोषणा करता/करती है कि उक्त प्रतिवेदन में दी गई सूचना एवं जानकारी सही एवं सत्य है। दी गई सूचना एवं जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

सूचनादाता/आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

संलग्न दस्तावेज (सही (✓) का निशान लगावें):-

1. मृत जन्म से सम्बन्धित प्रमाण पत्र
2. विलम्बित पंजीयन हेतु सक्षम अनुज्ञा का शपथ पत्र (केवल गैर संस्थागत घटनाओं के लिए)
3. आवेदक की पहचान एवं पते का दस्तावेज
4. परिवार का जन आधार कार्ड

कार्यालय उपयोग हेतु

रजिस्ट्रीकरण संख्या

रजिस्ट्रीकरण की तारीख

रजिस्ट्रीकरण इकाई

जिला

रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर

हमारा लक्ष्य – जन्म हो या मरण, शत प्रतिशत पंजीकरण

टोल फ्री नं. – 1800-180-6785

ई-मेल : jdvtal.des@rajasthan.gov.in, pehchan.raj@gov.in

वेबसाइट – <https://pehchan.raj.nic.in>